



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 652) पटना, बृहस्पतिवार, 11 अगस्त 2016

विधि विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2016

एस0ओ0 188, दिनांक 11 अगस्त 2016—जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक 226/विधि, दिनांक 09.09.2015 के अनुसरण में पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री श्याम नन्दन सहनी, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-733/1980 है, को अगले आदेश तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

4. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह निष्पादित तथा कारणों सहित लम्बित मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संबंधित लम्बितवादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत है। एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक है। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क देय होगा।

(सं० सी०/ए०एस०-3-37/2007/4833/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 652-571+25-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**